

61152

B.Com. 2nd Semester (Pass Course) w.e.f. Academic
Session 2014-15 onwards (Current Scheme)

Examination, May-2023

BUSINESS ECONOMICS-II

Paper-2.03

Time allowed : 3 hours]

[Maximum marks : 80

Note : Attempt five questions in all, selecting one question from each unit. Question No. 1 is compulsory. All questions carry equal marks.

नोट : प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए, कुल पाँच प्रश्न कीजिए। प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Answer the following in brief : 8×2=16

निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दीजिए :

(a) Pure Competition

शुद्ध प्रतियोगिता

(b) Equilibrium of firm

फर्म का सन्तुलन

(c) Non-price competition

गैर-कीमत प्रतियोगिता

61152-P-4-Q-9(23)

[P.T.O.]

- (d) Price leadership
कीमत नेतृत्व
- (e) Exploitation of labour
श्रम का शोषण
- (f) Transfer earning
हस्तांतरण आय
- (g) Liquidity trap
तरलता जाल
- (h) Can profit be zero?
क्या लाभ शून्य हो सकता है?

Unit-I

इकाई-1

2. Explain with diagrams the practical applications of perfect competition in case of efficiency in exchange and producer's equilibrium. 16

विनिमय कुशलता में तथा उत्पादक की संतुलन की स्थिति में पूर्ण प्रतियोगिता के व्यावहारिक प्रयोगों को रेखाचित्रों सहित वर्णन कीजिए।

3. What are main features of monopoly? How is monopoly power measured? 16

एकाधिकार की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं? एकाधिकारी शक्ति को कैसे माप जाता है?

Unit-II

इकाई-II

4. What is monopolistic competition? How price and output are determined under it? 16

एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या अभिप्राय है? इसमें कीमत तथा उत्पादन का निर्धारण कैसे होता है?

5. What are the various causes of emergence of oligopoly? Explain Cournot's model of oligopoly. 16

अल्पाधिकार के उद्गम के क्या कारण हैं? अल्पाधिकार के कूर्नो मॉडल की व्याख्या कीजिए।

Unit-III

इकाई-III

6. Explain the modern theory of factor pricing. 16

साधन मूल्य निर्धारण के आधुनिक सिद्धान्त का वर्णन कीजिए।

7. Critically examine the Ricardian theory of rent. 16

रिकार्डो के लगान सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

Unit-IV

इकाई-IV

8. "Interest is purely a monetary phenomenon." Explain this statement in the context of liquidity preference theory of interest. 16